

### BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

Date: September 04, 2024

F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India – 334006 T: +91-151-2250350 | F: +91-151-2251814 | E: cs@bikaji.com | W: www.bikaji.com CIN: L15499RJ1995PLC010856 | GST No.: 08AAICS1030P1Z5

Ref: BFIL/SEC/2024-25/61

To,
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)

**Scrip Code: 543653** 

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)

**Trading Symbol: BIKAJI** 

Subject: Newspaper Advertisement for Notice of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, E-Voting Information and Record Date

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the requirements of the Regulation 30, read with the Part A of Para A of the Schedule III and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement published in the "Financial Express" in English language newspaper and "Nafa Nuksan" in Vernacular language newspaper on Wednesday, September 04, 2024, regarding the notice for attention of the Shareholders of the Company, encompassing information of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), E-Voting information and Record Date.

The said advertisement will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.bikaji.com.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully,
For Bikaji Foods International Limited

Rahul Joshi Head - Legal and Company Secretary Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As Above

### IN THE NEWS

#### **IGNORES PUTIN'S** ARREST WARRANT



RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR Putin

received a red-carpet welcome to Mongolia on Tuesday, as the country ignored calls to arrest him on an international warrant for alleged war crimes stemming from Moscow's invasion of Ukraine. The trip was Putin's first to a member nation of the ICC since it issued the warrant in March 2023. Mongolia on Tuesday, as the

#### EX-BANGLA PM KHALEDA ZIA **ACQUITTED**

ACQUITED
BANGLADESH'S FORMER
PRIME minister Khaleda Zia
has been acquitted in five
separate cases, including
one filed over allegations of
celebrating a "falke birthday"
and another for supporting
war criminals, a media report
said on Tuesday.

#### **CHINA ACCUSED** OF 'POACHING' BY TAIWAN



Justice Investigation [Investigation Justice Investigation [Investigation Justice Invested on Tusday that Chinese state-invested companies have been operating illegal offices in Taiwan, aiming to acquire valuable business secrets and recruit local technology experts. technology experts, Taiwan News reported.

#### **SUBWAY EYES** \$2.3-BILLION **DEBT SALE**

SUBWAY, A SANDWICH restaurant chain, is looking to borrow \$2.3 billion in the asset backed securities market, selling bonds backed by its franchise fees after selling similar debt arter selling similar debt earlier this year. The company, which has the most restaurant locations of any chain in the US, was purchased by Roark Capital in a leveraged buyout that closed in April. AGENCIES

# Fed bosses agree on rate cut needs

ANN SAPHIR & HOWARD SCHNEIDER September 3

AS RECENTLY AS two and a half months ago, most US central bankers didn't see an interest rate cut in the cards at their

set rate cut in the cards at their September 17-18 meeting. By the end of last month, when Federal Reserve Chair Jerome Powell said it was time to start lowering borrowing costs, nearly all of his colleagues thought so too.

In large part, that was because a wide range of data moved in one direction. That pushed Fed policymakers to reassess the risks to their outlook, including whether their chief concern should be persistent inflation, abour market weakness, a deterioration in business or household financial conditions, a potential policy mistake, or some combination of those factors. tion of those factors.
"It's not one thing that

"It's not one thing that causes everyone to move. It's different people focus on dif-ferent data, different indica-tors, different risks, and then they all end up in the same place," said Kristin Forbes, an economics professor at MIT's

■ By the end of August, when Fed Chair said it was time to start lowering borrowing costs, all his colleagues agreed

■ Fed policymakers reassessed the reassessed the risks to their outlook, including whether their chief concern should be persistent inflation

Sloan School of Management

Sloan School of Management and a former member of the Bank of England's policy-set-ting committee. Speaking on the sidelines of the Kansas City Fed's annual economic symposium in Jacks son Hole, Wyoming, Jast month, where Powell declared the time had come for US rate cuts, Forbes said, "And that's where a youd (Fed) Chair can where a good (Fed) Chair can bring people together to get the outcome they want, but often by drawing on different motivations to get different people there." At least a couple of Fed pol-icymakers appear to still be on

policymakers appear to still be on the fence For most policymakers, a first reduction in rates after a

gruelling inf**l**ation fight is all but a

this month the fence, their support for pol-

the fence, their support for pol-icy easing contingent on fur-ther signs of a slowdown in inflation or weakness in the labour market.

But for the vast majority of Fed policymakers, a first redu-tion in rates after a gruelling inflation fight is all but a cer-tainty this month.

Incoming information, buttressed by their view of data

Incoming information, buttressed by their view of data buttressed by their view of data already seen, will shape how big a move they favor at the meeting in two weeks: A typical quarter-percentage-point cut or an up-sized half-percentage-point move.

—REUTERS

### tumbles below \$75 a barrel

ARUNIMA KUMAR September 3

BRENT CRUDE FUTURES were down \$3.08, or 4%, to \$74.44 a barrel at 1333 GMT,

were down \$3.08, or 4%, to \$754.44 a barrel at 1333 GMT, the lowest level since December. West Texas Intermediate crude futures, which did not settle on Monday because of the US Labour Day holiday, were down \$2.55, or 3.5%, at \$71.00 - their lowest since January.

UBS analyst Giovanni Staunovo said the sell-off was tired to Bloomberg's report, which quoted the Libyan central banker at the centre of the controversy as saying there were "strong" indications that the political factions involved were nearing an agreement. Libyan oil exports at major ports were halted on Monday and production curtailed across the country, six engineers told Reuters, continuing a standoff between rival political factions were crutalled.

a standoff between rival polit astandoff between Irval pointing lacif actions over control of the central bank and oil revenue. Libya's National Oil Corp (NOC) declared force majeure on its El Feel oilfield from September 2.

—REUTERS

—REUTERS

BIKAJI

# Brent crude All iPhones to feature OLED from next year

REUTERS Tokyo, September 3

APPLE WILL USE organic light-emitting diode (OLED) displays for all iPhone models sold in 2025 and later, moving entirely away from liquid crystal displays (LCDs), Japan's Nikkei newspa-per reported on Tuesday, citing

per reported on Tuesday, citing unnamed sources Television and smart phone makers are adopting OLED displays over LCDs for the former's ability to deliver more vivid colours and sharper contrast, ideal for high-definition videos. The planned move will exclude Japan's Sharp and Japan Display from Apple's handset business, Nikkei said. Apple has begun placing orders for OLED displays for the upcoming i Phone SE model from China's BOE Technology

IN A NUTSHELL

Apple first used OLED panels in iPhone X in 2017, and has since switched to OLEDs for premium iPhone models LCDs to OLED displays

The planned move will exclude Japan's Sharp and Japan Display from Apple's handset business



and South Korea's LC Display, according to Nikkei. Sharp and Japan Display had a combined 70% share of iPhone displays about a decade ago but had supplied LCDs only for the iPhone SE recently and do not mass-produce OLED dis-plays for smartphones, the plays for smartphones, the reportadded. Apple first used OLED panelsintheiPhoneX,unveiled

in 2017, and has since switched to OLEDs for premium iPhone models. The company brought OLED screens to the latest generation iPad Pro models launched in May.
Sharp, Japan Display and LG Display declined to comment in response to Reuters' queries. Appledid not immediately respond to a request for comment.

#### Russian missiles kill 50 in Ukraine

**BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED** Registered Office: F 196-199, F 178, E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334006 Corporate Office: Plot No. E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592,

Karni Extension, RIICO Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334 CIN: L15499RJ1995PLC010854

Email: cs@bikaji.com | Website: www.bikaji.com | Phone: 91-151-2250350

ATLEAST 50 people were killed

bodies of young men on the ground covered in dust and debris, with the badly damaged side of a large building behind them. "The Russian scum will definitely be held accountable for this strike," President Volodymyr Zelenskiy said on the Telegram messaging app. He ordered a full and prompt investigation, saying the strike damaged a building of the Military Institute of Communications.

The emergency service gave the death toll of 50; other officials said 51 were killed.

—REUTERS

# Starlink is the new conflict between Musk and Brazil

TENSIONS BETWEEN BRAZIL and Elon Musk's business empire ratcheted up further as empire ratcheted up further as the country's telecoms regulator threatened to sanction his satellite broadband company Starlink hours after its top court stood behind a controversial decision to ban social network X from the country. Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva also backed the brocourts' Lufan Alexandra da

cio Lula da Silva also backed the top court's Ludge Alexandre de Moraes' decision to suspend X. The judge found that X allowed postings of hate messages and falsehoods about the country's electronic voting system that undermined Brazil's democracy. "The Brazilian judiciary may have given an important



Brazil's President backed top court's decision to suspend X

signal that the world is not obliged to put up with Musk's far-right ideology just because he is rich," Lula said in an inter-view with CNN Brasil released on Monday.

Reacting to the judge's ear-lier move to freeze Starlink's accounts for possible use to pay fines owedby X, Musksaid in an X posting that he would seek a reciprocal seizure of Brazilian reciprocal seizure of Brazilian assets, but din oft say how. Starlink on Monday again found itself in Brazilian authorities' crosshairs by refusing to obey Moraes' order for all internet providers to block domestic access to X. A senior official at telecommunications regulator Anatel said sanctions against Starlink for noncompliance could include the revocation of its license to operate in Brazilian of the providers of the said sanctions of the said sanctions against the said said sanctions against

its license to operate in Brazil.

Anatel commissioner Artur
Coimbra told Reuters that the regulator is inspecting all Brazilian telecom operators to make sure they have shut down Musk's messaging platform. —REUTERS

CCL INTERNATIONAL LIMITED

CINA (1997) The Company of the Company

website of the Company at www.evorceteriald.in and at the BSE website www.bseriald.com.

Members who has not registered their email address are requested to register the same in respect of share held in electrons form with the Depositary through Depositary Participant(s) and in respect of share held in physical form by sending email writing to the Company's Register and Transfer Agents(FRT), Alensit Assignment Limited, Alexiet House, 48-22, Jhandwalan Estamation, New Delle Hollots, Members are also requested to House 48-22, and the share the control shall be also the same and an exception of the share the share the share of the share the share of the share of

CCL INTERNATIONAL LIMITED

#### NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Notes in interty, given that the 2P<sup>th</sup> Annual General Meeting (TARM 1) of the Morrhers of the Bitagli Foods International Limited (Company) 1s schodined to be held or Wednesday, September 2024 at 118 of A.M. 151 through Video Conferencing (TVEV Of their Audio Visual Means (TARM 1) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2011 Fart1 and rules are returned, specificate (1) Extraor International Limited (Company) 1s schodined to be held or Wednesday, September 2024 at 118 Act (1) and 118 Act (1) a

Instructions for Remote E-Voting and E-Voting during the AGM:

Accessibility in Merica of ADM and Annual Report: For ensuring absolute transparency and accessibility, the Natice of ADM, together with the Annual Report are readily as Accessibility in Merica and accessed at www.habaj.com, asswell as on the westels of the Risks Exchanger, where the shares of the Company were litted, i.e., BSE Limited at www. Section Sec

Complete the Form ISR-1, which is available for download from the

Update the Know Your Client (NYC) details, including -mails agrees, directly wan new respective responsery or implement of the County of the Final Divisions. The respective responsery or implement of the Post September 1 of the Victoria of the Final Divisions in the respective respective respective problement of the Post September 1 of the Victoria of the Remarks and Company in required to defect this at about 1 face of the Remarks and Company in required to defect this at about 5 form such divisions do not remark to the Income Sept. 42, 1951 and Final Divisions in Sept. 1 for Sept. 2 for S

For BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

Sd/-Rahul Joshi Head - Legal and Company Secretary Membership No.: ACS 33135

#### **SOUTHERN INFOSYS LIMITED**

Reg. office: 402-A. Avanuechol Seudine: 19. Bearwhambe Road, New Dehl-110001
NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING
AND E-VOITION INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (ACM) of the Members
AND E-VOITION INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (ACM) of the Members
of the Company will be hold on Widencedey, the 25th September, 2024 at 12 30 PM. Brough
Video Conferencing ("VC") or Other Austio-Vissail Means ("OAMI"). The Notice settlegout
the business to be hold on Widencedey, the 25th September 2024 at 12 30 PM. Brough
Video Conferencing ("VC") or Other Austio-Vissail Means ("OAMI"). The Notice settlegout
the business to brise searched at the meeting together with the Company (Decisionieris in
those members whose email addresses are registered with the Company (Decisionieris accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities
Exchange Board of India and the same is also available on our website
https://southerminosys.com and also on the NSDL's website www.evoling.nsdl.com. The
deemed venue for the 30th ACMI will be the registered office of the company.
NOTICE is also hereby given under Section 31 of the Companies ALZ, 0.131 Fact with
that 10 of the Companies (Management and Administration) Places, 2014 that the Registed
of Members and Share Transfer books of the Companies ALZ, 1013 read with Rule 20 of the
Companies and Carlos and Administration (2014) to 18th Deplember, 2024 (1014 to 28th Deplember).

Item September 2024 to 25th September 2024 company wair remain Good from companies and september 2024 to 25th September 2024 (both days includes) to fire purpose free ACM.

On compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (hardgement and Administration) Rules 2014, and Regulation 44 of the SEBI Listing Obligations & Bockouser Requirements (Regulations 2015; the Company is allowed to provide for Virting facility in its Members exability them to not their voils received to the Company is allowed to provide for Virting facility in the Members exability them to not their voils received provides (and the Virting facility in the Members exability them to not their voils the eviding remiser provided by National Securities Depositorly Limited (NSDL). The details in regarding remiser action growing the Virting of the Virting facility of member for eviding.

The dispatch for indicate the Company together with annual report has been completed on sits September 2024.

The remiser between the Virting shall commence on 22rd September 2024 at 9.00 AM. to 24th September 2024.

The remiser between the Virting shall commence on Virting shall be detailed by NSDL.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the NSDL of the ASM and the dispatch of the NSDL with a find to the entitled to exact their void facts may obtain the login ID and password by sending a request at evolving Bradie or the act of the ASM and the register of hemetics or in the register of hemetical travaries who have acts the rived to the middle of the ASM and that for the entitled to exist their void a find ASM.

\*\*Uniform Starp of presence which are acts their void acts of the ASM and that for the entitled to exist their void acts their void a find ASM.

\*\*Uniform Starp of presence which are acts their void acts of the ASM and that in the neithed to void using the revolute evolution price to the Register of hemetical travaries are recorded in the revolute evo

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian copy, it is not expensive to the Indian be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurreds as result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers recommend that readers before sending any monies or ontering any more advertisement in any manner whatsoever.

# NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (A Government of India Undertaking) A-11, Sector-24, Noids-201301 (CIN-1-74939DL1974G01007417) Phone No. 0120-2412294, Exth. 3411


Ref. No. 08-2024-25-D.

NOTICE INVITING GLOBAL E-TENDER

Bids are invited for supply of loose bulk fertilizers as detailed below:						
E-tender No.	Product	Qty. [in MT]	Coast	Last date of bid submission		
2024_NFL_207011_1	DAP	30,000-50,000	ECI	09.09.2024		
	(18:46:0)	30,000-50,000	WCI	till 11:00 Hrs IST		

NFL - A NAVRATNA COMPANY

































# स्मॉल कारों की सेल्स Crash होते ही मारुति को याद आई 'एफोर्डेबिलिटी'!



जयपुर@नफा नुकसान रिसर्च

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के संबंध इन दिनों संभवतया सब कुछ ठीक चलता प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी में यू-टर्न लेते हए बडे लंबे समय बाद स्मॉल

कार सेगमेंट में अपने 2 मॉडल्स- एल्टो के-10 व एस-प्रेसो- की प्राइस में 6500 रुपए तक की कमी करने की घोषणा की।ध्यान रहे कि कंपनी हर वर्ष अपने पोडक्ट पोर्टफोलियो की प्राइस में बढ़ोतरी करती है जिसके कारणों में रॉ-मैटेरियल कॉस्ट में बढोतरी से लेकर रेग्यलेटरी कंप्लायंस रिलेटेड कॉस्ट का बढना बताया जाता रहा है पर पिछले कई महीने से कंपनी के स्मॉल कार सेगमेंट की सेल्स में गिरावट का ट्रेंड जारी रहने के बाद मारुति सुजुकी को अब 'एफार्डेबिलिटी' की याद संभवतया आने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने उक्त मॉडल्स की प्राइस में कटौती के बारे में यह तर्क दिया है कि एफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बढते ही इन कारों की डिमांड फिर से रिवाइव हो सकती है।

गौरतलब है कि कंपनी की स्मॉल कारों की स्थिति मार्केट में उन पर ऑफर किए जा रहे डिस्काउंट्स व अन्य स्कीमों के बावजूद

### पिछले ४ वर्ष में मारुति एल्टो और एस-प्रेसो की गिरती सेल्स

Model	Sales (in units) in Jan-July						
	2024	2023	2022	2021			
Alto	65296	88002	77745	98483			
S-Presso	17940	20891	45391	42207			
Total	83236	108893	123136	140690			

लगातार कप्रजोर होती जा रही है। एकरों के-10 व एस-प्रेसो की सेल्स से इस स्थिति को समझने का प्रयास करें तो जनवरी-जुलाई 2024 में इन दोनों मॉडल्स की कल 83236 \_\_\_\_ यूनिट्स ही बिकी जो जनवरी-जुलाई 2023 में बिकी 108893 यनिटस से 25000 यनिटस

उल्लेखनीय है कि इन दोनों ही मॉडल्स की कुल सेल्स में पिछले 4 वर्षों (जनवरी-जुलाई) के दौरान लगातार बड़ी गिरावट देखी

जा रही है। डीलर्स के स्तर पर भी संभवतया इन मॉडल्स को लेकर खासा दबाव हो सकता है जिसके कारण मारुति को इनकी प्राइस में कटौती का फैसला करना पड़ा है।ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी-जुलाई 2022 में एरीना के प्रत्येक आउटलेट पर इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर कुल एवरेज 48 यूनिट विकी थी जो जनवरी-जुलाई 2024 पीरियड

में घटकर 28 ही रह गई है।सीधे शब्दों में समझा जाए तो जनवरी-जुलाई 2024 में एरीना नेटवर्क के तहत कुल 2987 आउटलेट्स (31 मार्च 2024 को) में से प्रत्येक आउटलेट पर प्रत्येक 7 दिनों में इन दोनों मॉडल्स की एवरेज 1 यूनिट ही बिक पाई है।

40690 ही विक पाई है।

मार्शत सुकुकों के लिए एक
दौर ऐसा था जब कहा जाता था कि कंपनी
इंडियन कंज्यूमर की नव्दा को भली-भांति
समझती है एर्त्त पिछले कुछ समय में प्लगी
सानित इं लाक्स्टाइल एस्पृत्वी जिन्मी,
इनविकटी जैसी ग्रीमियम कार्र बेचने में
असफलता, एस्पृत्वी सेगमिट में कंपीटिटर्स के असफारता, एसयूवा सगमट म कपाटिटस क मॉडल्स की काफी अधिक सेल्स व स्मॉल कारों की सेल्स बढ़ना तो दूर उन्हें मेंटेन भी नहीं कर पाने जैसे फेक्टरों ने कार सेगमेंट की मार्केट लीडर मारुति सुजुकी की कस्टमर को 'समझने' की स्थिति को पलट दिया है। कंपनी द्वारा एल्टो के-10 व एस-प्रेसो

पर ऑफर किए जा रहे बड़े डिस्काउंट्स के बावजूद उनकी प्राइस में कमी करने के फैसले का इंडिकेशन या तो यह है कि डीलर्स के यहां इनकी इंवेंट्री काफी अधिक है या फिर स्मॉल कारों की लगातार घटती सेल्स ने कंपनी को अपनी स्टेटेजी पर फिर से सोचने पर मजबर

# वैरायटी

# 185 हिंदुस्तानियों के पास 1 बि. डॉलर से ज्यादा फॉर्च्यून



नफा नुकसान रिसर्च

भारत की इकॉनमी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। इसके साथ ही देश में अमीरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 185 ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ एक अरब डॉलर यानी करीब 8,400 करोड़ रुपये से अधिक है। इन लोगों की कुल नेटवर्थ एक द्विलयन (लाख करोड़) डॉलर से ज्यादा पहुंच चुकी है। पिछले तीन साल में देश में ऐसे रईसों की वेल्थ में 50 प्रसेंट बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 185 बिलिनेयर्स की कुल नेटवर्थ 1.19 ट्रिलियन डॉक्स यानी करीब 99.96 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। साल 2022 के मुकाबले इसमें 832 अरब डॉक्स की ग्रोथ हुई है। इस दौरान बिलिनेयर्स की संख्या भी 142 से बढ़कर 185

रिपोर्ट के मुताबिक इन रईसों की टोटल वेल्थ देश की नॉमिनल जीडीपी के 33.81 फीसदी के बराबर है। इस साल की लिस्ट में 29 जावाना क 2501 सार्थ्य क व्यास्त्र हर रहस सार्थ्य कारास्त्र 2 मण् माम जुड़े हैं । इनमें जोहो कॉरपोरेशन के ब्रीधद वेंबू, शोखद वेंबू और राधा वेंबू शामिल हैं। अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन के विनाद कुमार अग्रवाल, अगार इंडस्ट्रीज के कुशल नरेंद्र देसाई और चेतन्न नरेंद्र देसाई, स्थाम मेटालिक्स एंड एनजीं के महाबीर प्रस्ताद अग्रवाल और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के शिव रतन अग्रवाल और दीपक अग्रवाल को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। मुकेश अंबानी 125.15 बि. डॉलर नेटवर्थ के साथ अक्वल हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ 123.9 बि. डॉलर हैं। भापूरजी मिस्त्री एंड फैमिली 43.47 बि. डॉलर नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 33.06 बि. डॉलर हैं। शिव नाडर (32.85 बि. डॉलर), राधाकिशन दमानी (30.31 बि. डॉलर) दिलीप सांघवी एंड फैमिली (27.64 बि. डॉलर), सुनील बी मित्तल एंड फैमिली (27.54 बि. डॉलर), अजीम एंड फैमिली (27.54 बि. डॉलर), अजीम प्रेमजी (24.18 बि. डॉलर) और आदि गोदरेज एंड फैमिली (20.76

#### Fortune India Top-10 Richest

Rank	Name	Networth
1	Mukesh Ambani	125.15
2	Gautam Adani	123.9
3	Shapoor, Firoz, Zeeshan Mistry	43.47
4	Savitri Devi Jindal	33.06
5	Shiv Nadar	32.85
6	Radhakishan Damani	30.31
7	Dilip Sanghvi & Family	27.64
8	Sunil B Mittal & Family	27.54
9	Azim Premji	24.18
10	Adi Godrej & Godrej Family	20.76

#### Ton 5 New Entrants

Top 5 Men Entrume						
Rank	Name	Networth	Company			
1	Sridhar, Sekhar, Radha Vembu	5.47	Zoho Corp			
2	Vinod Kr. Agarwa;	2.71	Agarwal Coal Corp			
3	Kushal Desai, Chaitanya Desai	2.33	Apar Ind.			
4	Mahabir Pd. Agarwal	1.93	Shyam Metalics & Energy			
5	Shiv Ratan Deepak Agarwal	1.9	Bikaji Foods Inter.			
Miles and in C Differen						





## बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड

#### कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और रिकॉर्ड तिथि

एतदाता पूर्णिया किया जाता है कि योकाजी फूड्स इंटररेक्शन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को आत: 11:00 बजे वीडियो कांक्रीसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुजल माध्यम ("ओऐवीऍम") द्वारा एजीएम की सुचना में दिये गये आम एवं किशेष व्यवसाय के लेन-देन करने के लिए समान स्थान पर सदस्यों की भौतिक मीजूरगी के बगैर आयोजित की जायेगी जिससे अनुपालन और बढ़ी हुई सुनिया सुनिक्षित हो सके एवं यह बैठक को कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम') के प्राययानी व संबंधित नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (स्कृतिबद्धता बाध्यतार्थ) और खुलासा आवस्पकलाएं) नियम, 2015 (''लिस्टिंग विनियमों') के नियमों एवं कंपनी मासलात मंत्रात्य द्वारा जारी किये गये परिपत्तें ('एमसीए एपिंग्य') आमा परिवार संबंध में भार200 दिलंक के अस्तेर, 2020 (17200) दिलंकि 13 ओन्तर, 2020) आमा परियार संख्य 202220 दिलंकि 2020; एवं इसके बाद इस संबंध में बारी किये गये परिपत्तें, विनामें नवीनतम परिपत्र संख्या 69/2023 दिलांक 25 सितव्य, 2023 शामिल हैं, एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विभिन्नव बोर्ड (''सेबी परिपत'') द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 एवं इसके बाद इस संबंध स्व वानान कहि 'ते को पत्र के अपने का प्रति के पत्र किया है। में जाति किये गए सभी परिषक विसमें नेवतिन परिषक संख्य SEBIH-OICFDICFD-OD-2PPCIR2023145 दिनांक २० ब्लट्टबर, 2023 शामिल हैं, के लागू प्रावधारों के अनुपालन में हैं। एबीएम से संबंधित सभी उदेश्यों के लिए समान स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा जो एफ 196–199, एफ 178, ईं 188, बींख्याल इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर-334006, राजस्थान, भारत में स्थित है।

188, बांखवाल इंडस्ट्रायल एरिया, बांकार-344000, राजस्थान, भारत में ास्वत है। पूर्णिप्प कोन वार्षिक स्थित है। बुक्त सुक्त के प्रकार के स्थान स्थानित होते हैं। बुक्त के स्थान के प्रकार नास्तित स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्यान स्थान स

और कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट का प्रेमण मंगलवार, 05 सिर्ववर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त एमसीए परिपर्जों और सेवी परिपर्जों के अनुरूप, कंपनी के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट की भीतिक प्रति भेजने की आवश्यकता अब अनिवार्ग नहीं है। कंपनी वार्षिक रिपोर्ज को भीतिक प्रति कंपन संबंधित अस्टरच से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर ही उपलब्ध कराएगी, जिसे ca@bikaji.com पर अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसमों उनके फोलियों नंबए/डोपी आईडी और बलाईट आईडी का स्पष्ट अनेख होना चाहिए।

बोट डालने का तरीका, एजीएम में भागीदारी और दस्तावेजों का निरिक्षण : यदम्य केवल वी.सी./ओ.ए.वी.एम. युनिशा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए पूर्ण निर्देश और रिमीट ई-बीटिंग या एजीएम के दीवन ई-बीटिंग में भागीदारी की प्रकार नार्विकेन्दिक एजीएम की मूनने पह एक एक हैं। सहलापूर्ण रूप से नी.सी./ओ.ए.गी.एम. युनिशा के माध्यम से भाग तेने वाले सहलों को अधिनियम की भाग 103 के तहत कोरम की गणना के डोट्य से गिना खाएगा।

एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज एजीएम की सूचना के नोट्स अनुभाग में बिंदु संख्या 13 में उलिखित प्रक्रियाओं

एलाएए म लंग-रेन तथा, जात नाले जात्याचारण स्वरं म स्वामंतर देशांचन एलाएम को सूचना क नाइम अनुभाग मा त्वदु प्रका 1,2 म बीलांखन प्रांकरायां का पालन करते हुए स्वरंद हों हिंदी होते के हिए होत्वन्तिक कर से सूचल होते।

[स्मोट ई-बोटिंग और एजीएए के हिए होत्वन्तिक कर से सूचल होते।

करनी (प्रचंपन और प्रांचाए में के हिए होते।

के साथ पित्र अधिनम की प्रांचान) नियम, 2014 के साथ पित्र अधिनम की थारा 108 के अनुपालन में और लिस्टिंग विनियमों के विनियम

44 एवं भारतीय करोता नियस संस्थान द्वारा वार्य सामान्य बैठकों एर सचिवार्य मानक (प्रस्पास-2) की अनुपालना में कंपनी सदस्यों को एजीएम के नीटिस में
बीक्षिवा (सिंट ई-बोटिंग और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के माध्यम से साधारण और विशेष दोनों व्यवसायों पर बोट देने के अपने ऑफकार का प्रयोग करने की
सूचिया प्रचान कर रही है यूचावर, 18 सितंबर, 2024 को, जो कि कर-आंत लिंब है, वीस्ट रूप में या भीतिक रूप में येवर रहने वाले सरस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से www.evotingindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे जिसकी सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विमेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') द्वारा दी जाएगी, जिसे ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

- 2. सभी सदस्यों को सुचित किया है। कि एक किया है कि : ए, रिमोट ई-बोटिंग अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 वजे (आईएसटी) समाप्त होगी।
- बन। (आइएसटा) स्पान हमा। बैसे कोई भी क्यों के वार्षिक आम बैटक की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भेजे जाने के पक्षात करेनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, तो वह www.evotingindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिगोट ई-चोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो सदस्य अपना वोट डब्लने के लिए अपने मीजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता

- 3. सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विदुओं पर ध्यान दें:
  i. ऊपर तिबिखत निर्दिष्ट तिषि तथा समय के पक्षात सीडीएसएल ह्नारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-बोटिंग मॉइयुल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
  ii. एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर अपना बोट छल देता है. चाहे आंशिक रूप से या अन्यवा, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से बोट जलने को जनुमति नहीं होगी;
- ांगे. वे सदस्य, जो पूजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट डाल चुके हैं, पीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे पर वे एजीएम के दौरान ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होंगे; iv. एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-बोटिंग प्रणाली के
- माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे:
- भाज्यन च जनमा चाट जारा न हरकार होता. ४. कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-आंक तिर्षि के अनुसार डिशॉजिटटी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रिकटर या लाभावीं मालिक के रिकटर में हर्ज है, वह रिमोट ई-बोटिंग को सुविधाओं का लाभ उठने, बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग करने का हकदार होगा; vi. सदस्यों के बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रदत इक्तिटो शेयर पूंजी में उनको शेयरधारिता के समानुपातिक होंगे; और

vii. चंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इसलिए एमसीए परिपत्रों के अनुसार प्रॉक्सी नियक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं

पां. जुंक एजीएम वीसी ओएवीएम के माध्यम से आवाजित को जाएगी, इसलिए एमसीए परिएजों के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सरस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्त लागू नहीं होगे हो। इसलिए, सरस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्त लागू नहीं होगे हो। इसलिए स्पन्न हो। इसलिए से स्वार करने के लिए, वार्षिक आम बैटक को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केक्स की बेचना और वार्षिक रिपोर्ट केक्स की बेचना इसलिए हो। इ

पंजीकरण परा करने की सलाह दी जाती है :

- पंचालरण पूर करन का स्वारत है जाता है : 1. भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए : ≽ फॉर्म ISR-1 मरें, जो कंपनी की बेसमाइट www.bikaji.com से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है; ≽ विधिवत परा और हस्ताक्षरित फॉर्म को पैन कार्ड को स्व-सत्वापित प्रति और पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज़ (अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्योपित प्रति और ऐसे अन्य स्तावेजों, जैसा कि फॉर्म ISR-1 में निर्धारित हैं, के साथ करेगी के रीजन्द्रार एवं शेषर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रावेट लिगिन्टेड (''आरटीए'') को mt.helpdesk@linkintime.co.in पर जमा करें ; और ≽ साथ हों, इसकी पीतिक प्रति डाक के माध्यम से कंपनी के कॉपीरेट कार्यातय को पेजें।

- डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए :
   सीधे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ ई-मेल पत्ते सिंहत अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण अपडेट करें; और

केवाईसी अपडेट के लिए डिपॉजिस्टी प्रतिभागी(ऑ) द्वारा बताई गई विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करें। <mark>ओतेम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि</mark> : वित्त वर्ष 2023–24 के लिए औतम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 14 जन, 2024 थी। यदि सदस्यों द्वारा आगामी 29वीं एजीएम में अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो उसका भगतान गुरुवार, 24 अक्टबर, 2024 को या

ा चुन्तु , देश को नाथ करना अंदि जाना के उनाय करना का लिए किया के लिए का निर्माण का लिए किया हुन्ता को एक अलग ई-मेल संचार भेजा गया था।

\$-वीटिंग के लिए सहायता चेंचल : सुचारू और प्रभावों ई-वोटिंग प्रक्रिया सुनिश्चत करने के लिए, शेयरधारकों को ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देशों का संदर्भ लेने की सलाह दो जाती हैं, जैसा कि एजीएम की सुचना में उन्निखत हैं। ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न औरण्या शिकायत के मामले में, कृपया शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए विस्तृत ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देखें, जो सीबीएसएल की ई-

बोटिंग वेबसाइट www.evolingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है। बाद रेबरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में कोई प्रस्ताशकावत है या उन्हें वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान प्रोद्योगिकों के प्रथमित में स्वीत सारवान को अन्यस्वता है, तो वे निमालिखित सहस्ता को उपलेग के संबंधन सहस्ता के उपलेग कर सकते हैं: क. अपने प्रस्तों को निर्दिष्ट ई-मेल पहें helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेवें;

- ख. तत्काल सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें; ग. व्यक्तिगत सहायता के लिए सीधे श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मीजिल, मैरायन मयुवरायुक्स, मफतलाल मिल कंपाउँड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013, महाराष्ट्र, भारत से संपर्क करें, और घ. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक किसी भी विशिष्ट चिंता के लिए cs@bikaji.com पर ई-मेल लिखकर कंपनी के प्रमुख-लीगल एवं कंपनी सचिव से संपर्क

ा राज्या है। संबोक्षक <mark>की नियक्ति :</mark> निरंशक मंडल ने बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में ई-वॉटिंग प्रक्रिया के लिए संबोक्षक के रूप में सीएस मनोज माहेबरी (सदस्ता संख्या-एफ 3355 और सीपी संख्य-1971), प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया है और ठनकी अनुपरियति में, ई-वोटिंग प्रक्रिया को निम्मक्ष और चारदर्शी प्ररोके से संचालित करने के लिए सीएस प्रियंका अग्रवाल (सदस्यता संख्या-एफ 1138 और सीपी संख्या-15021), प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

स्वतान परिणामों की घोषणा और प्रकाशन : रिनोट ई-पोटिंग और एवंशिश के दौरान डाले गए योटों के परिणाम एवंशिश के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों में प्रीप्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही, घोषिल मदादन परिणाम जांचकतों की रिगोट के साथ व्यक्ति प्रस्तवेंची को सुचित करने के तुर्ति वाद कंपनी की पंचाहर अपकारी को को उन्हों के उन्हों के स्वातवें के स्वातवें के स्वातवें के साथ के अपकार करने करने के तुर्ति वाद कंपनी की पंचाहर अपकारी को जांचा की उन्हों के स्वातवें स्

पुष्पक है, जजात, जाएएड (citres www.bselinula.com) जार नेवतन दर्शन एसराय का का इन्जा (citres www.hselinula.com) पर जार तर प्रति है वर्षनी इसके अतितर , परिपाप पंजीबत को कार्यलय के साथ-साथ करमें के कोपिंट कार्यालय में भी प्रतिशिक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि यक संस्यय नहीं हैं, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। एजीएम के संबंध में सभी संचार, प्ररुग या सहायता के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे कंपनी के आरटीए मैससे लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ rnt.helpdesk@linkintime.co.in के जरिए ई-मेल के माध्यम से संवाद करें। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे एजीएम की सूचना की गहन समीक्षा करें, एजीएम में भाग सेने तथा एजीएम के दौरान ई-जोटिंग या रिमोट ई-जोटिंग सिस्टम के माध्यम से जोट जलने के तरीके पर विस्तृत निर्देशों पर विशेष ध्यान दें। यह संचार लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, ताकि कंपनी के सभी सदस्यों के लाभ के लिए व्यापक जानकारी सुनिक्षित

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड वास्ते